



दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड

**THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD.**

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय : न्यू इन्डिया एश्योरन्स बिल्डिंग, 87, महात्मा गांधी मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001.

Regd. & Head Office : New India Assurance Bldg., 87, M.G. Road, Fort, Mumbai - 400 001.

CIN No. L66000MH1919GOI000526

Phone : 022-22708100  
22708400

Website : [www.newindia.co.in](http://www.newindia.co.in)

Ref No.: NIACL/CMD\_Board Sectt/2021-22

August 12, 2021

To,

The Manager  
Listing Department  
BSE Limited  
PhirozeJeejeebhoy Tower  
Dalal Street  
Mumbai 400 001

The Manager  
Listing Department  
The National Stock Exchange of India Ltd.  
Exchange Plaza, 5<sup>th</sup> floor, Plot C/1,  
G Block, Bandra-Kurla Complex  
Mumbai 400 051

Scrip Code: (BSE – 540769/NSE – NIACL)

Dear Sir/Madam,

**Sub: Extract of the Unaudited Financial Results (Standalone/CFS) of the Company for the Quarter ended 30th June, 2021 published in Newspapers**

This has reference to our letter dated 11.08.2021 whereby we had submitted the outcome of the Board Meeting held on 11th August, 2021.

The Newspaper clipping of the "Extract of the unaudited financial results (Standalone/CFS)" of the Company for the Quarter ended 30th June, 2021 is enclosed. The said extracts are also available on Company's website at [www.newindia.co.in](http://www.newindia.co.in)

You are requested to kindly take the same on record.

Yours Sincerely,

For The New India Assurance Company Ltd.

  
  
**Jayashree Nair**  
**Company Secretary & Chief Compliance Officer**

**punjab national bank**  
Together for the better

Boisar Branch: Shop No. 24 to 27 & 47, Jagdish Enclave, Near S1 Stand, Boisar - 401501

To, **Date: 10.05.2021**  
M/s. Yash Lifestyle, House No. 1867, Plot No. 87, Dhanani Nagar, Shigaon Road, Near Z. P. School, Boisar - 401501.  
Mr. Rahul Lalbachan Chaubey, House No. 1867, Plot No. 87, Dhanani Nagar, Shigaon Road, Near Z. P. School, Boisar - 401501.

Dear Sir / Madam,

**NOTICE U/S 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.**  
Reg: Account No. 16634011000134 / Credit Facilities availed by M/s. Yash Lifestyle You M/s. Yash Lifestyle, House No. 1867, Plot No. 87, Dhanani Nagar, Shigaon Road, Near Z. P. School, Boisar - 401501 have availed the following credit facilities:

Sr. No.	Facility	Limit	Rate of Interest	Balance outstanding as on 31.03.2021 (i.e. Principal + Int)	Interest (upto 30.04.2021)	Total outstanding as on date of issuance of notice
2	CC	5 Lacs	8.05	Rs. 5,67,285.55	Rs. 30,995.00	Rs. 5,98,280.55
<b>Total Rs. 5,98,280.55 + Further Interest</b>						

ROI - at the time of sanction of facilities & subject to change from time to time as per RBI guidelines; \*\* Interest was applied in the accounts till 31.03.2021; Due to non-payment of installments / interest / principal debt, the account/s has / have been classified as Non-performing asset as per Reserve Bank of India guidelines. We demanded / recalled the entire outstanding together with interest and other charges due under the above facilities, vide letter dated 24.05.2021.

The amount due to the Bank as on 30.04.2021 is Rs. 5,98,280.55/- (Rupees Five Lakhs Ninety Eight Thousand Two Hundred Eighty and Fifty Five Paise Only) with further interest until payment in full (hereinafter referred to as "secured debt"). To secure the outstandings under the above said facilities, you have, inter alia, created security interest in respect of the following properties / assets:

Sr. No.	Facility Security	Securities
1.	CC	Stock and Book debts

We hereby call upon you to pay the amount of **Rs. 5,98,280.55/- (Rupees Five Lakhs Ninety Eight Thousand Two Hundred Eighty and Fifty Five Paise Only)** with further interest at the contracted rate until payment in full within **60 days (Sixty Days)** from the date of this notice. In default, besides exercising other rights of the Bank as available under Law, the Bank is intending to exercise any or all of the powers as provided under section 13(4) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter referred to as "the Act"). The details of the secured asset/s intended to be enforced by the Bank, in the event of non-payment of secured debt by you are as under:

Sr. No.	Facility Security	Securities
1.	CC	Stock and Book debts

Your attention is hereby drawn invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time available to you redeem the secured assets. Please take notice that in terms of section 13(13) of the said Act, you shall not, after receipt of this notice, transfer by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of business) any of the secured assets above referred to, without prior written consent of the Bank.

You are also put on notice that any contravention of this statutory injunction / restraint, as provided under the said Act, is an offence. If for any reason, the secured assets are sold or leased out in the ordinary course of business, the sale proceeds or income realized shall be deposited / remitted with/to the Bank. You will have to render proper account of such realization / income.

We reserve our rights to enforce other secured assets. Please comply with this demand under this notice and avoid all unpleasantness. In case of non-compliance, further remedial action will be resorted to, holding you liable for all costs and consequences.

\*This notice is issued without prejudice to the bank taking legal action before DRT / Court, as the case may be.

Yours faithfully,  
For Punjab National Bank  
AUTHORISED OFFICER

**3i Infotech Limited**  
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP  
3i Infotech Limited  
(CIN: L67120MH1993PLC074411)  
Regd. office: Tower # 5, International Infotech Park, Vashi Station Complex, Navi Mumbai 400703, Maharashtra, India. Email: investors@3i-infotech.com Website: www.3i-infotech.com Tel No.:022- 7123 8000

**Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2021**  
₹ in Lakhs Except EPS)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended	Quarter Ended	Year Ended
		June 30, 2021 (Unaudited)	June 30, 2020 (Unaudited)	March 31, 2021 (Audited)
1	Revenue from operations	15,986	14,952	60,862
2	Net Profit / (Loss) excluding Exceptional Income & Discontinued Operations for the period (excluding additional charge of interest (notional) required under Ind AS 109 on Preference Share Capital, Foreign Currency Convertible Bonds (FCCBs) and interest free debts and before Tax)	(22)	2,364	7,053
3	Net Profit / (Loss) for the period including Exceptional Income & Discontinued Operations (after considering additional charge of interest (notional) required under Ind AS 109 on Preference Share Capital, Foreign Currency Convertible Bonds (FCCBs) and interest free debts and before Tax)	(680)	1,204	41,422
4	Net Profit / (Loss) for the period (including Exceptional Income & Discontinued Operations) after tax	(787)	1,049	39,116
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax)	(919)	1,179	38,719
6	Paid up Equity Share Capital			1,61,665
7	Reserves (Other Equity) (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			(1,33,597)
8	Basic & Diluted Earnings Per Share (of ₹ 10/- each)			
	For Continuing Operations	(0.05)	(0.10)	1.59
	For Discontinued Operations	-	0.16	0.83
	Basic & Diluted EPS (on Profit for the period excluding additional charge of interest (notional) on financial instruments)	(0.04)	(0.02)	1.88

**Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2021**  
₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended	Quarter Ended	Year Ended
		June 30, 2021 (Unaudited)	June 30, 2020 (Unaudited)	March 31, 2021 (Audited)
1	Revenue from operations	5,310	4,957	20,777
2	Net Profit / (Loss) for the period including Exceptional Income & Discontinued Operations (after considering additional charge of interest (notional) required under Ind AS 109 on Preference Share Capital, Foreign Currency Convertible Bonds (FCCBs) and interest free debts and before Tax)	2,175	2,410	32,456
3	Net Profit / (Loss) for the period (including Exceptional Income & Discontinued Operations) after tax	2,175	2,404	32,441

**Note:**  
The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended on June 30, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results is available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com / www.bseindia.com) and the Company's website (www.3i-infotech.com).

By order of the Board for 3i Infotech Limited  
Thompson Gnanam  
Managing Director & Global CEO

Navi Mumbai  
August 10, 2021

**DEMAND NOTICE**  
Under Section 13(2) of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act), read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (the said Rules). In exercise of powers conferred under Section 13(2) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules, the Authorised Officer of IFL Home Finance Ltd. (IFL HFL) (Formerly known as India India Inframe Housing Finance Ltd.) has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrower(s), to repay the amount mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them. In connection with above, notice is hereby given, once again, to the Borrower(s) to pay within 60 days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further interest from the date(s) of Demand Notice till the date of payment. The detail of the Borrower(s), amount due on date of Demand Notice and security offered towards repayment of amount are as under:-

Name of the Borrower(s)	Demand Notice Date and Amount	Description of secured asset (immovable property) Guarantor (s)
<b>Mr. Sunil Haridas Wankhade, Mrs. Purnam Dilprao Bhagat, (Prospect No. IL10011159)</b>	<b>04-AUG-2021 Rs. 10,03,439/-</b> (Rupees Ten Lakh Three Thousand Four Hundred Thirty Nine Only)	All that piece and parcel of the property being <b>Apartment No. -1007,10th Floor, Area Admeasuring 305.70 Sq.ft. Bldg No Z4 Sheltrex Smart Phone City 2 Village, Akurle, Karjat, Raigad, Maharashtra, India, 401210</b>
<b>Mr. Banti Omprakash Valmiki, Mrs. Jarti Rajendra Barediya, Mr. Omprakash Tejpal Valmiki, Mrs. Sarvesh Devi O Walmiki, (Prospect No. 876701)</b>	<b>04-AUG-2021 Rs. 17,24,833/-</b> (Rupees Seventeen Lakh Twenty Four Thousand Eight Hundred Thirty Three Only)	All that piece and parcel of the property being <b>Flat No-508, D-Wing, Tushli Kalash City, Rasayani, Panvel, Mumbai, Maharashtra</b>

If the said Borrowers fail to make payment to IFL HFL as aforesaid, IFL HFL may proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the said Act, and the applicable Rules, entirely at the risks, costs and consequences of the Borrowers. For further details please contact to Authorised Officer at Branch Office-BM6238-306310, 3rd Floor, Park Commercial Center, Premium Park, Boli Nagar, Agashi Road, Above OTW Hotel, Virar (West) - 401303/Or Branch Office-IFL House, Sun Infotech Park Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagale Estate, Thane - 400604 / Or Corporate Office : IFL Tower, Plot No.98, Udyog Vihar Phase-IV/Gurgaon, Haryana.  
Place: PANVEL, RAIGAD Date: 12-08-2021  
Sd/- Authorised Officer For IFL Home Finance Ltd. (IFL HFL)

**HONDA**

**Honda India Power Products Limited**  
(formerly known as Honda Siel Power Products Limited)  
Regd. Office : 409, DLF Tower B, Jasola Commercial Complex, New Delhi -110025  
CIN: L40103DL2004PLC203950  
Website: www.hondaindiapower.com | E-Mail: ho.legal@hspp.com

**EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2021**  
(IN ₹ lakhs)

S. No.	PARTICULARS	Quarter ended		Year ended
		30 June 2021	31 Mar 2021	30 June 2020
		Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Revenue from Operations	26,424	29,562	11,031
2	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional items)	2,647	2,018	(939)
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional items)	2,647	2,018	(939)
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional items)	1,981	1,529	(703)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,979	1,569	(719)
6	Equity Share Capital	1,014	1,014	1,014
7	Reserves	-	-	-
8	Earnings per equity share (of Rs 10 per share) (not annualised):			
	(a) Basic (Rs.)	19.53	15.07	(6.93)
	(b) Diluted (Rs.)	19.53	15.07	(6.93)

**Note:**  
The above is an extract of the detailed format of unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June 2021, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on Company's website (www.hondaindiapower.com).

**For and on behalf of the Board of Directors of Honda India Power Products Limited**  
Sd/-  
Takahiro Ueda  
CMD and President & CEO  
DIN : 08685990

Place : New Delhi  
Date : August 10, 2021

**BENARES HOTELS LIMITED**  
Corporate Identification No. (CIN) : L55101UP1971PLC003480  
Regd. Office: Nadesar Palace Compound, Varanasi - 221 002. Tel : 0542 - 6660001,  
Corporate Office: Taj Palace, Sardar Patel Marg, New Delhi - 110021, Phone: 011 6650 3549/3704  
E-mail : investorrelations@tajhotels.com Website : www.benareshotelslimited.com

**NOTICE OF THE 50<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

**NOTICE** is hereby given that the Fiftieth (50<sup>th</sup>) Annual General Meeting ('AGM' or 'Meeting') of the Members of Benares Hotels Limited ('the Company') will be held on **Friday, September 3, 2021 at 3.00 p.m. (IST)** via two way Video Conferencing ('VC') facility / Other Audio Visual Means ('OAVM') ONLY without the physical presence of the Members at a common venue, to transact the businesses set out in the Notice of the AGM, in accordance with the General Circulars Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated May 12, 2020 and January 15, 2021 respectively, issued by the Securities and Exchange Board of India (herein referred to as 'SEBI Circulars').

In compliance of the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Company has sent the Notice of the 50<sup>th</sup> AGM along with the Annual Report for FY 2020-21 on Tuesday August 10, 2021 through electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depository Participants.

The Annual Report 2020-21 of the Company is available on the website of the Company at <https://www.benareshotelslimited.com/en-in/AGM-2021/> and also on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com). A copy of the same is also available on the website of the stock exchange on which the securities of the Company is listed, i.e. at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

**Register of Members and the Share Transfer Books:**  
The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from, Friday, August 27, 2021 to Tuesday, September 7, 2021 (both days inclusive) for the purpose of the 50th AGM.

**Remote e-Voting:**  
In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Secretarial Standards - 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India on General Meetings and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its Members the facility of remote e-Voting before as well as during the AGM to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using the electronic voting platform provided by NSDL. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on Friday, August 27, 2021 ('Cut-Off Date').

Members may cast their votes on any or all of the resolutions using the remote e-voting facility before the AGM or during the AGM. The detailed instructions for remote e-Voting before and during the AGM are given in the Notes to the Notice of the AGM.

The remote e-Voting facility would be available to the Members during the following period:

<b>Commencement of remote e-Voting From 9.00 a.m. (IST) on Tuesday, August 31, 2021</b>	
<b>End of remote e-Voting</b>	<b>Upto 5.00 p.m. (IST) on Thursday, September 2, 2021</b>

The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time. Once the vote on a resolution has been cast by the Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.

The facility of remote e-Voting system shall also be made available during the Meeting and the Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote e-Voting shall be able to exercise their right during the Meeting. A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on the Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before / during the AGM.

Members who have casted their vote on resolution(s) by remote e-Voting prior to the AGM will also be eligible to participate at the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote on such resolution(s) again.

Any person holding shares in physical form and non-individual shareholders, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date may obtain the User ID and password for casting his/her vote or for participating at the AGM by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in). However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the votes.

In case of individual shareholders holding securities in electronic mode and who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the Notice is sent and holding shares as of the cut-off date may follow steps mentioned in the Notice of the AGM.

For details relating to remote e-Voting, please refer to the Notice of the AGM. In case of any queries relating to remote e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions and e-Voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or send a request to [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in).

In case of any grievances connected with the facility for remote e-voting and joining the AGM please contact NSDL on [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or call on toll free nos.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager - NSDL at [amitv@nsdl.co.in](mailto:amitv@nsdl.co.in) or Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL at [pallavid@nsdl.co.in](mailto:pallavid@nsdl.co.in).

**Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSDL:**

Login Method	Helpdesk Details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 224 430
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSDL	Members facing any technical issue in login can contact CDSDL helpdesk by sending a request at <a href="mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com">helpdesk.evoting@cdsindia.com</a> or contact at 022- 23058738 or 022-23058542-43

Place: New Delhi  
Date: August 11, 2021  
**Registered Office:**  
Nadesar Palace Compound,  
Varanasi - 221 002  
E-mail: [investorrelations@tajhotels.com](mailto:investorrelations@tajhotels.com)  
Website: [www.benareshotelslimited.com](http://www.benareshotelslimited.com)

**For Benares Hotels Limited**  
Sd/-  
Vanika Mahajan  
Company Secretary

**दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड**  
**The New India Assurance Co. Ltd.**



**Extract of Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2021**  
₹ IN CRORES)

Sl. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter Ended		Year ended		Quarter Ended		Year ended	
		30th June, 2021	31st March, 2021	30th June, 2020	31st March, 2021	30th June, 2021	31st March, 2021	30th June, 2020	31st March, 2021
1	Gross Written Premium	9,718	9,070	8,368	33,046	9,804	9,134	8,441	33,306
2	Net Written Premium	7,461	7,291	6,784	26,966	7,510	7,329	6,830	27,114
3	Profit Before Tax	102	335	343	2,037	117	324	364	2,060
4	Profit After Tax	89	241	286	1,605	100	240	303	1,628
5	Solvency Ratio (Times)	2.00	2.13	2.11	2.13	2.00	2.13	2.11	2.13
6	Net Worth	18,019	17,786	16,176	17,786	18,722	18,485	16,824	18,485
7	Earning Per Share (Absolute Figures)	0.54	1.46	1.74	9.74	0.60	1.41	1.93	9.95

Note : 1. The above is an extract of the detailed format of quarter and year ended Financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 and Regulation 52 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation 2015. The full format of the Quarterly Ended Financial results are available on the websites of Stock exchanges ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and the Company ([www.newindia.co.in](http://www.newindia.co.in)).

2. The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board at their meeting held on August 11, 2021.

Place : Mumbai  
Date : 11th August, 2021

For and on behalf of the Board of Directors  
sd/-  
**Atul Sahai**  
Chairman-Cum-Managing Director  
DIN07542308

**24x7 - Toll free number**  
**1800-209-1415**

**www.newindia.co.in**

**NEW INDIA ASSURANCE**

**दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड**  
**The New India Assurance Co. Ltd**

Head Office: New India Assurance Building, 87, M. G. Road, Fort, Mumbai - 400 001 INDIA  
IRDAI REGN No. 190  
CIN : L66000MH1919G0I00526

# संसद सत्र दो दिन पहले समाप्त

राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा रहा जारी, सदन की कार्यवाही बार-बार हुई बाधित

संसद 9 जुलाई से शुरू हुआ मॉनसून सत्र अपने पूर्व निर्धारित समय से दो दिन पहले ही बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। पेगासस जासूसी मामले, तीन केंद्रीय कृषि कानून को वापस लेने की मांग सहित अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के शोर-शराबे के कारण पूरे सत्र के दौरान संसद में कामकाज बाधित रहा। लोकसभा में जहां मात्र 22 प्रतिशत वही राज्यसभा में महज 28 प्रतिशत ही कामकाज हो पाया। संसद में पूरे सत्र के दौरान गतिरोध बना रहा हालांकि रण्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची बनाने का अधिकार देने संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में सभी विपक्षी दलों ने चर्चा में भाग लिया। लोकसभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित निचले सदन में विभिन्न दलों के नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भेंट की।



**■ संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021 हुआ पारित** **■ साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक को राज्यसभा में मंजूरी** **■ लोकसभा में कुल 20 विधेयक हुए पारित**

को लगातार चर्चा के बाद, रण्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) की सूची बनाने का अधिकार देने संबंधी संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया। यह विधेयक रण्यों को ओबीसी की जातियों की पहचान करने और सूची बनाने का अधिकार देता है। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार द्वारा पेश किए गए इस विधेयक को चर्चा के बाद पारित करा दिया गया। आरक्षण की सुबह कार्यवाही शुरू होने पर बताया कि 17वीं लोकसभा की छठी बैठक 19 जुलाई 2021 को शुरू हुई और इस दौरान 17 बैठकों में 21 घंटे 14 मिनट कामकाज हुआ। बिरला ने बताया कि सत्र के दौरान संविधान (127वां संशोधन) विधेयक सहित कुल 20 विधेयक पारित किए गए। वहीं राज्यसभा में करीब छह घंटे

दी जिससे सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में अधिक निजी भागीदारी को सुगम बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने विधेयक को पारित किए जाने का विरोध किया और इसे सदन की प्रवर समिति में भेजे जाने की मांग की। लेकिन सदन ने उनके अनुरोध को खारिज कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, 'सहमत-असहमत लोकतंत्र की विशेषता है और कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाती है, गतिरोध बना रहता है। हमने इस दिशा में संवाद के जरिए कोशिश की है और भविष्य में और कोशिश करेंगे।' वहीं राज्यसभा में पीठासीन अध्यक्ष भुवनेश्वर कालिता ने घोषणा की कि उपसभापति ने विभिन्न दलों के नेताओं को विचार-विमर्श के लिए अपने कक्ष में आमंत्रित किया है।

## कितने विधेयक पारित

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार सुबह कार्यवाही शुरू होने पर बताया कि 17वीं लोकसभा की छठी बैठक 19 जुलाई 2021 को शुरू हुई और इस दौरान 17 बैठकों में 21 घंटे 14 मिनट कामकाज हुआ। बिरला ने बताया कि सत्र के दौरान संविधान (127वां संशोधन) विधेयक सहित कुल 20 विधेयक पारित किए गए। वहीं राज्यसभा में करीब छह घंटे

## नायाडू हुए भावुक

राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार की घटना पर क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा कि सदन में जो कुछ हुआ, उसकी निंदा करने के लिए उनके पास शब्द नहीं हैं। उन्होंने कहा कि संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर होता है और इसकी पवित्रता पर आंच नहीं आने देना चाहिए। विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा आसन के समक्ष आ कर हंगामा करने की बात का हवाला देते हुए सभापति ने कहा कि संसदीय परंपराओं को ताक पर रखने के लिए मानों होड़ सी मची हुई है।

उन्होंने कहा, 'मंगलवार को जो अप्रिय घटना हुई, उस समय सदन में कृषि क्षेत्र की समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा हो रही थी जो एक महत्वपूर्ण विषय है। सदस्य सरकार को अपनी मांग को लेकर बाध्य नहीं कर सकते।' सभापति अपनी बात कह रहे थे, इसी दौरान कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाती है, गतिरोध बना रहता है। हमने इस दिशा में संवाद के जरिए कोशिश की है और भविष्य में और कोशिश करेंगे।

मंगलवार को राज्यसभा में बैठक के दौरान विपक्षी दलों के कुछ सदस्य आधिकारिक मेज पर चढ़ गए, उन्होंने काले कपड़े पहनाए और कुछ दस्तावेज फेंके।

# नोवावैक्स टीके को मिलेगी मंजूरी

सोहिनी दास

अमेरिका की एक प्रमुख कंपनी नोवावैक्स के कोविड टीके को अपने देश से पहले ही भारत में मंजूरी मिल सकती है। नोवावैक्स और उसकी साझेदार कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) ने 5 अगस्त को भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) और इंडोनेशिया तथा फिलीपींस में नियामक संस्था के पास आपातकालीन इस्तेमाल के लिए आवेदन किया है। भारत ने कहा है कि किसी भी टीके को जिसे यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (यूएसएफडीए) और ब्रिटेन में दवा एवं स्वास्थ्य सेवा उत्पाद नियामक एजेंसी (एमएचआरए) जैसी नियामक संस्थाओं से मंजूरी मिली है उसके भारत में इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी जाएगी।



अमेरिका में मंजूरी मिलने से पहले भारत, मंजूरी देने पर करेगा विचार

विलनिकल, क्लीनिकल और केमिस्ट्री विनिर्माण और कंट्रोल के डेटा शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि मई 2021 में डीसीजीआई द्वारा एसआईआई के निर्माण साइट का संयुक्त निरीक्षण सफलपूर्वक पूरा किया गया है।

एसआईआई के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) अदार पूनावाला ने कुछ दिन पहले कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि एसआईआई द्वारा बनाए गए नोवावैक्स टीके को डीसीजीआई की मंजूरी के आधार पर अगले साल की पहली तिमाही तक वयस्कों के लिए और बच्चों के लिए इस साल अक्टूबर के आसपास लॉन्च किया जाएगा। नोवावैक्स के एक प्रवक्ता ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि कंपनी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), यूके-एमएचआरए, यूरोपियन मेडिसिंस एजेंसी (ईएमए) और अन्य कड़े नियामक प्राधिकरणों के पास आपातकालीन इस्तेमाल के अधिकार के लिए भी आवेदन करना चाहती है।

के साथ काम करना जारी रखें ताकि यह पता रहे कि हम सुचारु तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। विभिन्न देशों में नियामकों की अलग-अलग आवश्यकताएँ हैं। हम अपने कई भागीदारों की विशेषज्ञता और ज्ञान का लाभ उठा रहे हैं ताकि यथासंभव प्रगति कर सकें साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम सुरक्षा और गुणवत्ता की गारंटी देने वाली सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।' उन्होंने कहा कि अमेरिका में कंपनी आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी के लिए एफडीए के साथ काम जारी रखे हुए है। नोवावैक्स ने कहा, 'एसआईआई टीके तैयार कर रही है और यह देश में टीके के व्यावसायिक पहलू के लिए भी जिम्मेदार होगा।'

नोवावैक्स और एसआईआई को कोवैक्स के लिए भी 1.1 अरब डॉलर की खुराक देनी है। हालांकि, कोवैक्स को आपूर्ति शुरू करने से पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की तरफ से योग्यता की मंजूरी मिलनी जरूरी होगी। डब्ल्यूएचओ को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए सूची अगस्त में ही जमा करने की उम्मीद है जो डीसीजीआई के डेटा पर ही आधारित है। आपातकालीन इस्तेमाल की सूची तैयार के लिए अगस्त महीने में ही डब्ल्यूएचओ को एक आवेदन दिए जाने की उम्मीद है। मेरीलैंड की इस कंपनी को 2021 की तीसरी तिमाही के अंत तक हर महीने 10 करोड़ खुराक के वैश्विक उत्पादन लक्ष्य और चौथी तिमाही के अंत तक 15 करोड़ खुराक प्रतिमाह हासिल करने की उम्मीद है। कोवैक्स का मूल्यांकन, दो प्रमुख तीसरे चरण के परीक्षणों में किया गया है। ब्रिटेन के परीक्षण में मूल वायरस स्ट्रेन पर टीका 96.4 फीसदी प्रभावी रहा और वायरस के अल्फा स्वरूप पर यह 86.3 प्रतिशत प्रभावी रहा।

# विदेश जाने में बढ़ी दिलचस्पी

अनीश फडणीस

मई में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने विदेशी यात्रा पर रोक लगा दी थी लेकिन अब हालात बदले से नजर आ रहे हैं क्योंकि कई देश अब टीका लगवा चुके भारतीय पर्यटकों का स्वागत करने लगे हैं। बीते मंगलवार को स्पेन ने उन भारतीयों के लिए दरवाजे खोल दिए जिन्होंने टीके की पूरी खुराक ले ली थी। इस तरह स्पेन भी फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में शामिल हो गया जिन्होंने कुछ हफ्ते पहले ही ऐसा किया था। ऐसे में छुट्टियों पर जाने वाले भारतीय इसका फायदा उठा रहे हैं क्योंकि उनके सामने सीमित नॉन-स्टॉप उड़ानों, कम वीजा स्टॉट और कुछ जगहों पर कोवैक्सीन टीके लेने वालों को प्रवेश की मंजूरी न दिए जाने जैसी चुनौतियाँ भी हैं जिनसे उन्हें निपटना है।



विभिन्न देशों ने भारतीय यात्रियों पर लगे प्रतिबंधों में ढील दे दी है, ऐसे में लोग फिर से विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं

बुकिंग में 600 फीसदी से अधिक की वृद्धि देख रहे हैं।' वर्तमान में, थॉमस कुक जैसी कंपनियों के ग्राहकों का जायजा ले

तो व्यक्तिगत स्तर पर यात्रा करने वाले यात्रियों की श्रेणी सबसे बड़ी है और 20-25 यात्रियों के छोटे समूहों की यात्रा में भी धीरे-धीरे तेजी आ रही है। मालदीव जुलाई में भारतीय पर्यटकों के लिए खोल दिया गया ऐसे में इसका आकर्षण सबसे ज्यादा है क्योंकि यह दुबई या अन्य देशों में जाने से पहले क्वारंटीन स्थल के रूप में यात्रियों के लिए बेहतर विकल्प है क्योंकि कुछ देशों में अभी भी भारतीयों को सीधे प्रवेश की अनुमति नहीं है। इंडिगो फिलहाल चार शहरों से मालदीव के लिए विमान सेवाएँ दे रही है और इस महीने से हैदराबाद और चेन्नई के लिए भी नई उड़ान शुरू कर दी जाएगी। विस्तारा भी मालदीव के लिए विमान सेवाएँ शुरू करने की योजना बना रही है।

# दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड

The New India Assurance Co. Ltd.

**सकल रिटन प्रीमियम**

**₹ 9,718**

करोड़

**कर पश्चात लाभ**

**₹ 89**

करोड़

**सॉल्वन्सी अनुपात**

**2.00x**

टाइम्स

## 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए एकल और समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार

क्र. सं.	विवरण	एकल				समेकित			
		समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष				
		30 जून, 2021	31 मार्च, 2021	30 जून, 2020	31 मार्च, 2021	30 जून, 2021	31 मार्च, 2021	30 जून, 2020	31 मार्च, 2021
1.	सकल रिटन प्रीमियम	9,718	9,070	8,368	33,046	9,804	9,134	8,441	33,306
2.	निवल रिटन प्रीमियम	7,461	7,291	6,784	26,966	7,510	7,329	6,830	27,114
3.	कर पूर्व लाभ	102	335	343	2,037	117	324	364	2,060
4.	कर पश्चात लाभ	89	241	286	1,605	100	240	303	1,628
5.	सॉल्वन्सी अनुपात (टाइम्स)	2.00	2.13	2.11	2.13	2.00	2.13	2.11	2.13
6.	निवल संपत्ति	18,019	17,786	16,176	17,786	18,722	18,485	16,824	18,485
7.	प्रति शेयर अर्जन (संपूर्ण आंकड़े)	0.54	1.46	1.74	9.74	0.60	1.41	1.93	9.95

**नोट:** 1. ऊपर सेबी (यूबीईए) और अन्य प्रकटन आवश्यकताएँ विनियामकी, 2015 के विनियम 33 और विनियम 52 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में पेश किए गए तिमाही और वर्ष के वित्तीय परिणामों के विस्तृत रूप का सार है। समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों का विस्तृत पूर्ण रूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट (www.bseindia.com व www.nseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.newindia.co.in) पर उपलब्ध है।

2. उपर्युक्त परिणामों की लेखापरीक्षण समिति द्वारा समीक्षा की गई और बोर्ड द्वारा 11 अगस्त, 2021 को आयोजित उनकी बैठक में अनुमोदित किए गए हैं।

स्थान: मुंबई  
दिनांक: 11 अगस्त, 2021

निदेशक मंडल की ओर से एवं उन्हीं के लिए  
हस्ता./-  
अतुल सहाय  
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक  
डीआईएन07542308

**बैंक ऑफ़ बड़ौदा**  
Bank of Baroda

www.bankofbaroda.in

**प्रस्ताव हेतु अनुरोध**

बैंक ऑफ़ बड़ौदा निम्नलिखित प्रस्तावों के लिए अनुरोध आमंत्रित करता है।

- सिस्को मेक डेस्कटॉप आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूनिट की आपूर्ति इस्टॉलेशन और कमीशनिंग तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए टीएमएस लाइसेंस।
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए रुम आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरणों की आपूर्ति, इस्टॉलेशन और कमीशनिंग।

विस्तृत विवरण बैंक की वेबसाइट [www.bankofbaroda.in](http://www.bankofbaroda.in) के निविदा खंड में उपलब्ध है।

इस संबंध में किसी भी 'परिशिष्ट' की सूचना केवल बैंक की वेबसाइट [www.bankofbaroda.in](http://www.bankofbaroda.in) पर निविदा खंड में दी जाएगी। बोलीकर्ता अंतिम रूप से प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले इसे अवश्य देख लें।

उपर्युक्त प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख **09 सितंबर 2021** है।

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा  
मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (6521-22)

स्थान: मुंबई  
दिनांक: 12.08.2021

**बैंक ऑफ़ बड़ौदा**  
Bank of Baroda

www.bankofbaroda.in

**उप रक्षा बैंकिंग सलाहकार के पद हेतु भर्ती सूचना**

बैंक ऑफ़ बड़ौदा, जो कि भारत के सबसे बड़े बैंकों में से एक है, उप रक्षा बैंकिंग सलाहकार के पद हेतु अनुभवी वरिष्ठ भूतपूर्व रक्षा कर्मियों से आवेदन आमंत्रित करता है।

चुनौतीपूर्ण कार्यदायित्वों के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय बैंक से जुड़े और इसकी विकास यात्रा के सहभागी बनें।

रिक्रिये की संख्या	2
संभावित पदस्थापना केंद्र	भोपाल और जयपुर
नियुक्ति की अवधि	संविदा के आधार 3 वर्षों की अवधि के लिए, जो बैंक द्वारा बढ़ायी जा सकती है।
पात्रता	अधिकतम 60 वर्ष
आयु (दिनांक 01.07.2021 को)	भारतीय थल सेना में ब्रिगेडियर/ भारतीय नौसेना में कप्तान/ भारतीय वायु सेना में एयर कप्तान
सेवा में धारित अंतिम रैंक	

इच्छुक उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे विस्तृत विवरण हेतु बैंक की वेबसाइट [www.bankofbaroda.in](http://www.bankofbaroda.in) → Career Page → Current Opportunities खंड देखें।

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **01 सितंबर, 2021 (23:59 बजे तक)** है।

स्थान: मुंबई  
दिनांक: 12.08.2021

हस्ता./-  
मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन प्रबंधन) (6521-22)

**24x7 - Toll free number**

**1800-209-1415**

[www.newindia.co.in](http://www.newindia.co.in)

**NEW INDIA ASSURANCE**

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड

The New India Assurance Co. Ltd

प्रधान कार्यालय: न्यू इन्डिया एश्योरन्स बिल्डिंग, 87, एम.जी. रोड, फोर्ट, मुंबई-400 001, भारत

IRDAI REGN No. 190

CIN: L66000MH1919G0000526



# ReNew enters hydro sector, buys L&T unit

Firm acquires solar unit in Andhra too; combined value of 2 projects pegged at ₹2,850 crore

SHREYA JAI  
New Delhi, 11 August

Infrastructure major Larsen & Toubro (L&T) sold its 99-megawatt (Mw) hydro power project to ReNew Power, marking its entry in the hydro sector.

Separately, ReNew, which is set to list on the New York Stock Exchange, also acquired 260 Mw/330Mwp of operating solar project in Telangana. It pegged the combined enterprise value of the two acquisitions, including L&T's project, at ₹2,850 crore (\$384 million).

As part of the deal with L&T, ReNew will take over L&T Uttaranchal Hydropower, which owns the Singoli-Bhatwari Hydroelectric Project (SBHEP),

from L&T Power Development, a wholly-owned subsidiary of the company. ReNew will also absorb the project operations team of SBHEP. The sale consideration is ₹985 crore, said a statement by L&T, and the transaction is expected to be closed before September 30. L&T company said, this is in line with the L&T's focus of divesting non-core assets and improving shareholder value.

"This development is a significant step in our effort to unlock the value of some of our power development assets to streamline and allocate capital to create long-term value for our shareholders," said D K Sen, whole-time director of L&T, adding that they are aiming to become a more asset-light organisation.

As the project is operational, there would be no construction cost for ReNew. Additionally, it was commissioned after March 2019, the power purchase from this project can be used to avail Hydropower Purchase Obligation (HPO) by

the procurers. HPO requires states/discos to meet a certain portion of their energy demand from hydro power.

ReNew Power said the addition of SBHEP, which has a pondage capacity of 2-3 hours, adds 200-300 Mw of low-cost hydro storage to ReNew's portfolio. Last year, ReNew won the country's first round-the-clock renewable project, which will have a hybrid capacity, including 0.9 Gw wind power, 0.4 Gw solar power, along with corresponding energy storage with an investment of ₹9,000 crore.

Sumant Sinha, ReNew Power's CEO, said the firm will acquire more hydro assets as they offer the best clean balancing sources for intermittent renewable energy. Hydro power and gas-based power projects are used for balancing purposes due to their quick start-up time. While coal is used as base power, renewable energy sources like solar and wind power are intermittent. Hydro is used to iron out the intermittency of solar and wind.

# ITC super app coming this yr: Puri

ISHITA AYAN DUTT  
Kolkata, 11 August

Diversified conglomerate ITC on Wednesday said it would be launching a super app, ITC MAARS (Metamarket for Advanced Agriculture and Rural Services), this year to unlock the potential of small farmers.

Addressing shareholders, ITC Chairman and Managing Director Sanjiv Puri has said ITC-MAARS will lend new wings to ITC e-Choupal and create a robust 'phygital' ecosystem to deliver seamless cus-

tomised solutions to farmers, anchored by FPOs (farmer producer organisations), while creating new revenue streams, strengthening sourcing efficiencies, and powering ITC's world-class Indian brands.

ITC-MAARS will offer a full complement of agricultural solutions, while its micro-services structure will enable plug-in by a range of agtech solutions, Puri said. The entire suite will comprise hyperlocal services, AI-based personalised advisories, and online marketplaces. The firm has already

started pilots. "Some pilots at scale on an integrated chilli value-chain initiated in Andhra Pradesh have validated the concept and benefited farmers with an additional income of 26 per cent in the ongoing season," Puri said.

The super app will be built e-Choupal. Over the past two decades, e-Choupal has not only boosted farmers' incomes, but is also an important part of ITC's agri-sourcing infrastructure.

More on business-standard.com

KHADIM KHADIM INDIA LIMITED							
Registered Office: "Kankaria Estate", 5th Floor, 6, Little Russell Street, Kolkata - 700071, West Bengal, India Website: www.khadims.com Tel No: +91 33 4009 0501; Fax No: +91 33 4009 0500 e-mail: compliance@khadims.com CIN: L19129WB1981PLC034337							
Extract of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended 30th June, 2021							
(Rs. in millions)							
Sl. No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		3 months ended 30th June, 2021	12 months ended 31st March, 2021	Corresponding 3 months ended 30th June, 2020	3 months ended 30th June, 2021	12 months ended 31st March, 2021	Corresponding 3 months ended 30th June, 2020
1.	Total Income from Operations	882.30	6,261.78	603.98	882.30	6,261.78	603.98
2.	Net (Loss) / Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(111.33)	(431.24)	(273.42)	(111.34)	(431.53)	(273.43)
3.	Net (Loss) / Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(111.33)	(431.24)	(273.42)	(111.34)	(431.53)	(273.43)
4.	Net (Loss) / Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(108.90)	(329.15)	(277.56)	(108.91)	(329.44)	(277.57)
5.	Total Comprehensive (Loss) / Income for the period [Comprising (Loss) / Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(108.46)	(327.38)	(277.65)	(108.47)	(327.67)	(277.66)
6.	Equity Share Capital	179.70	179.70	179.70	179.70	179.70	179.70
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)		1,829.61			1,828.80	
8.	Earnings per equity share (of Rs.10/- each) (not annualised)						
	1. Basic (Rs.)	(6.06)	(18.32)	(15.45)	(6.06)	(18.33)	(15.45)
	2. Diluted (Rs.)	(6.06)	(18.32)	(15.45)	(6.06)	(18.33)	(15.45)

Notes:  
The above is an extract of the detailed format of Statement of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed financial results and this extract were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the meeting held on 11th August, 2021. The full format of the Statement of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Company's website (www.khadims.com) and on the websites of the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com).


Place: Kolkata  
Date: August 11, 2021


For and on behalf of the Board of Directors  
Siddhartha Roy Burman  
Chairman & Managing Director  
DIN: 00043715

talbros Talbros Automotive Components Limited					
CIN: L29199HR1956PLC033107 Regd. Office: 14/1, Delhi Mathura Road, Faridabad-121003 (Haryana) Tel No.: 0129-2251482, Website: www.talbros.com, Email: seema_narang@talbros.com					
CONSOLIDATED NET REVENUE UP BY ₹8833.33 Lacs in Q1*		CONSOLIDATED PBT UP BY ₹2058.93 Lacs in Q1*		CONSOLIDATED PAT UP BY ₹1881.68 Lacs in Q1*	
*AS COMPARED TO Q1 IN PREVIOUS FINANCIAL YEAR					
EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021 (₹ in lacs)					
Particulars	Quarter ended				Year ended
	30-Jun-21	31-Mar-21	30-Jun-20	31-Mar-21	
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	
Total Income from Operations	13,881.90	16,039.04	5,048.57	45,315.14	
Profit/(Loss) before exceptional items and tax	1,143.30	1,776.88	(915.63)	3,368.70	
Profit/(Loss) before tax	1,143.30	3,588.82	(915.63)	5,180.64	
Net Profit/(Loss) after tax	995.97	2,743.39	(885.71)	3,913.07	
Total Comprehensive income for the period (Comprising profit/(Loss) after tax and other comprehensive income after tax)	1,444.65	3,215.75	(667.87)	5,022.39	
Paid-up equity share capital (face value of ₹10/- each)	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	
Earning Per Share (of ₹10/- each)					
Basic (₹)	8.07	22.22	(7.17)	31.70	
Diluted (₹)	8.07	22.22	(7.17)	31.70	
Not Annualised					
EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021 (₹ in lacs)					
Particulars	Quarter ended				Year ended
	30-Jun-21	31-Mar-21	30-Jun-20	31-Mar-21	
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	
Total Income from Operations	13,881.90	16,039.04	5,048.57	45,315.14	
Profit/(Loss) before exceptional items and tax	1,006.26	1,511.16	(648.34)	2,816.43	
Profit/(Loss) before tax	1,006.26	3,323.10	(648.34)	4,628.37	
Net Profit/(Loss) after tax	858.93	2,477.67	(618.42)	3,360.80	
Notes:					
1 The above is an extract of the detailed format of consolidated Financial Results for the quarter ended 30 <sup>th</sup> June 2021, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly/annual Financial Results and notes thereto are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com & www.bseindia.com) and on Company's website www.talbros.com.					
2 The Unaudited financial results were recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 11 <sup>th</sup> August, 2021 and have undergone "Limited Review" by the Statutory Auditors of the Company.					
3 During the quarter ended March 31, 2021, the Group has sold its Property, plant and equipment situated at Chennai, Tamilnadu and has written off receivables, inventory and other assets related to the Chennai plant. The net gain from the transaction has been disclosed as exceptional items in the results. The capital gain tax on sale of property, plant and equipment has been disclosed as part of the tax expense in the results. Following table provides bifurcation between exceptional items & capital gain tax on sale of property, plant & equipment and profit from operations & related tax expense.					
(₹ in lacs)					
S. No.	Particulars	Consolidated			
		Quarter ended		Year ended	
		30-Jun-21	31-Mar-21	30-Jun-20	31-Mar-21
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
A.	Operational Profit				
1	Profit Before Exceptional Item	1,143.30	1,776.88	(915.63)	3,368.70
2	Tax Expenses	(147.33)	(502.75)	29.92	(924.89)
	Profit After Tax	995.97	1,274.13	(885.70)	2,443.81
B.	Monetization of Chennai Property (Exceptional)				
1	Exceptional items	-	1,811.94	-	1,811.94
2	Capital Gain Tax	-	(342.68)	-	(342.68)
	PAT (Exceptional Items)	-	1,469.26	-	1,469.26
4 The Group's operations and financial results for the quarter ended June 30, 2021 were initially impacted by the outbreak of COVID-19 pandemic and the consequent series of lockdowns announced by the Government of India due to which the operations were disrupted in some part of quarter and gradually resumed with requisite precautions and then continued normally. The results for the quarter ended June 30, 2021 are therefore not comparable with those for the previous period. The Group has considered the possible effects that may result from this pandemic on the carrying amounts of property, plant and equipment, investment, inventories, receivables and other current assets. The Group expects the carrying amount of these assets will be recovered and no material adjustment required in the financial statement. The Group will continue to closely monitor any material changes to future economic conditions.					
for Talbros Automotive Components Limited Sd/- Umesh Talwar Vice Chairman & Managing Director Date: August 11, 2021 Place: Gurugram DIN: 00059271					

## दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड


# The New India Assurance Co. Ltd.






**Gross Written Premium**

**₹9,718 Crores**



**Profit After Tax**

**₹89 Crores**



**Solvency Ratio**

**2.00x Times**

### Extract of Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2021 (₹ IN CRORES)

Sl. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter Ended		Year ended		Quarter Ended		Year ended	
		30th June, 2021	31st March, 2021	30th June, 2020	31st March, 2021	30th June, 2021	31st March, 2021	30th June, 2020	31st March, 2021
1	Gross Written Premium	9,718	9,070	8,368	33,046	9,804	9,134	8,441	33,306
2	Net Written Premium	7,461	7,291	6,784	26,966	7,510	7,329	6,830	27,114
3	Profit Before Tax	102	335	343	2,037	117	324	364	2,060
4	Profit After Tax	89	241	286	1,605	100	240	303	1,628
5	Solvency Ratio (Times)	2.00	2.13	2.11	2.13	2.00	2.13	2.11	2.13
6	Net Worth	18,019	17,786	16,176	17,786	18,722	18,485	16,824	18,485
7	Earning Per Share (Absolute Figures)	0.54	1.46	1.74	9.74	0.60	1.41	1.93	9.95

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of quarter and year ended Financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 and Regulation 52 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation 2015. The full format of the Quarterly Ended Financial results are available on the websites of Stock exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and the Company (www.newindia.co.in).


2. The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board at their meeting held on August 11, 2021.

For and on behalf of the Board of Directors  
sd/-  
**Atul Sahai**  
Chairman-Cum-Managing Director  
DIN07542308

Place: Mumbai  
Date: 11th August, 2021

**24x7 - Toll free number**  
**1800-209-1415**

**www.newindia.co.in**



## NEW INDIA ASSURANCE

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड  
The New India Assurance Co. Ltd

Head Office: New India Assurance Building, 87, M. G. Road, Fort, Mumbai - 400 001 INDIA

IRDAI REGN No. 190  
CIN: L66000MH1919G0I000526